

SALE DEED of C.S. Plot No. 1485 vide Sale deed no. 1066 of 1907  
Date of execution of Sale deed 24.3.1907 Date of Registration 25.3.1907  
By Chhabhai Mahto S/o Shiv Prasad Mahto to Bengali Mahto  
S/o Nirmal Mahto Rs. 200/-  
वसीका नं. 1066 स्टॉप 2 रूपा

हम छठु महतो वल्द शिवदयाल महतो कौम कोइरी साकिन अरफावाद

राजपुत टोली स्लाक्के थाना आलमगंज मिनमहलात शहर पटना पेशा

कास्तकारी के हूँ

चुँ हमगी वो तभामी मवाजी 10 कट्टा अराजी हीक्यत कास्त रैयती

कदीमी वाके मौजे अरफा वाद परगना अजिमावाद थाना आलमगंज मिन

महलात शहर पटना डिवजन सदर सहर पटना जिला पटना के अराजी

मजकुर वदेहे जमींदारी महंथ असूत दास वजमा मो 0 7 रूपया 3 आना

सालाना मय रोडसीन पब्लिक वाके है अजां ममलुका वो मकसुजा खुद के तिसल

इस वक्त तक वारदेन से सेवाय  
सर्व-सर्वज किसी दुसरो के घसीटा महतो वो बुधू महतो के

पाक वो साप है वो वेला सिरकत गैरे वो वेमदाखलत अहदे कंबज वो दखल मे

मनमोकिर के चला आता है वो है इलहाल मनमोकिर कसुस रजाय वो

रगवत खुद वेला जत्र वो दवाव किसी दुसरो के वो वदुरुस्तगी होश वो

हवास खुद वजरत अदाय दैन याफतनी घसीटा महतो वो बुधू महतो

मुन्दर्ज वसीका रेहन वो दीगर स्खराजात जरूरी अहाली खानदान खुद वो

खुद वो अदाय जर मालगुजारी अराजियात कास्त खुद उस मवाजी 10 कट्टा

अराजी हीक्यत कास्त रैयती मजकुर सदर को जो आज मकसुल है

हस्व हदुद अरवा मोफ्तले जैल हाजा ववदल मो० 200 रूपया जत्र  
सरकारी के आधा उसका मो० 100 रूपया जत्रमोसुफा होता है वेला  
शार्त फिस्त्र वो खेयार वदस्त वंगाली महतो वल्द निर्मल महतो कौम  
कोइरी साकिन महल्ला वाग भूप सिंह थाना आलमगंज मिनमहलात  
शाहर पटना पेशा कास्तकारी के बेचा वो ब्यलाक्लामी किया  
वो मिनजुमला जसमन महकुर के मो० 50 रूपया वाफतनी घसीटा  
महतो वो बुधू महतो वअदाय वसीका रेहन मुसतरी मजकुर को वापस  
दिलवा दिया वो मो० 150 रूपया नकद तमाम वो कमाल मुसतरी  
मजकुर से वसुल पाकर कब्ज वो तसरुफ मे अपने वो खानदान अपने दर  
लाये मुसतरी मजकुर को उपर सैय मोवईया के काबज दिखल वो  
मालिक मुस्तकिल गर्दाना जो हक मनमोकिर को सैय मोवईया मे  
हासिल था वह कुल हक वेला तफरका कुदामी इसतहकाक कुदामी  
इसतहकाक मुसतरी मजकुर को हासिलहुआ वो मुसतरी मजकुर को  
हासिल हुआ वो मुसतरी मजकुर नीज वजुस रजाय वो रगवत खुद सैय  
मोवईया मरकुम को ववदल जरसमन मजकुर खरीद करके वअदाय जरसमन  
काबज दिखल सैय मोवईया मरकुम के हुये सानीउलहाल मनमोकिर वो

वारसान वो कायम मोकाभयान मुसतरी मजकुर के कुछ दावी वो  
मोतालवा वो मोवाखजा वो हक्के वो तलवे वो खुसुमते वाकी न रहा  
वो न होगा इस वास्ते यह केवाला बैयलाक्लामी लिख दिया कि वक्त  
पर काम आवे

हदुद अरवा मवाजी 10 कटठा अराजी हकियत कास्त रैयती कदीमी  
वाके महल्ला अरफावाद परगना अजिमावाद थाना आलमगंज  
डिविजन सदर सहर पटना जिला पटना के अराजी मजकुर वदेहे जमींदारी  
महंथ अमृत दास वजामा मो 7 रूपया 3 आना सालाना मय रोडसीस  
पब्लि वाके है वो अराजी मजकुर सरह महाल वाके है  
पश्चिम - कास्त घसीटा महतो वो बुधु महतो

पूरब - बांध

दक्षिण - बांध

उत्तर - कास्त मुसतरी मरकुम

तारीख 24 माह मार्च सन 1907 ई० मोताविक 24 माह चैत अवल

सन 1314 फसली सम्बत 1964 फसल

सही छठु महतो बैय लिखा सो सही कातिव ने मजमुन वसीके हाजा का

पढकर सुना वो समझा दिया वाकलम वसंत महतो भतीजा हीकीक

साकिन चक मोसलहपुर निस्तानी मेरे सामने बनाया

गवाह नथुनी महतो साकिन राजपुत टोली मुखाते मोकिर के वाकलमखास

गवाह हरदयाल महतो साकिन राजपुत टोली मुखाते मोकिर के वाकलमखास

गवाह विपन महतो साकिन गोसाइ घाट मुखाते मोकिर के वाकलमखास

गवाह अकलु महतो साकिन मिरदाहा टोली मुखाते मोकिर के वाकलमखास

गवाह मोती महतो साकिन राजपुत टोली मुखाते मोकिर के वाकलमखास


कातिव वसीका हाजा रामप्रसाद झाकिन हाल मोकामी महल्ला संदलपुर

क्लां सहर पटना वस्करार मनमोकिर मरहकुम मजकुन वसीका हाजा पढकर

मोकिर को सुना दिया

पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 12 पेज सं. 260 से 262 वसीका सं. 1066

साल 1907



Correctly Stamped or exempt from duty under Indian Stamp Act Schedule No. 23 Admissible under Rule 4 fee paid

Handwritten notes in Urdu script, including 'A/1', 'R/4', and '1/4'.

Handwritten Urdu text, possibly a signature or official statement, dated 25-3-1908.

Main body of handwritten Urdu text, consisting of several paragraphs of cursive script.

Vertical handwritten notes in Urdu script on the right side of the page.

Vertical handwritten text on the far right edge of the page.

Handwritten text in Devanagari script, likely a title or header, possibly containing a date or reference number.

name of the  
 in the year of 1907  
 m. of ...  
 Jay of ... at ...  
 Sub-Registry ... Bank ...  
 District Patna

by ...  
 ...  
 caste ...  
 occupation ...  
 residence ... Rajput ...  
 Thanna ...  
 District ...

Handwritten signature or name in Devanagari script.

Handwritten signature or name in Devanagari script, enclosed in a decorative border.

3-3-1907

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper section, including a date or reference number.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Handwritten text in the middle section, continuing the narrative or list.

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a list or index.

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a list or index.

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a list or index.

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a list or index.

Large handwritten text block at the bottom of the page, possibly a signature or summary.

Large handwritten text block at the bottom of the page, possibly a signature or summary.

1485



Guleram is ad...  
 by Handwritten name  
 Chatterjee...  
 who is...  
 by Handwritten name  
 Chatterjee...  
 Same  
 Same

Handwritten text in Bengali script, possibly a signature or address.

Multiple lines of handwritten text in Bengali script, likely a list or detailed notes.

25-3-1807

1227

500  
 100  
 100  
 100  
 100



Handwritten signature and date: 26-5-07

C.S. Plot No. 1483 Area 14 Dec (5 Katha) through  
Sale deed No. 1137 of 1921, Date of Registration - 22.4.1921  
Date of Execution - 21.4.1921 By Budhu Mahto & Shamwar Mahto  
to Bengali Mahto S/o Nirmal Mahto for Rs. 150/-

वसीका नं. 1137 स्टाम्प 2 रुपया

मनके बुधु महतो वल्द शानीचर महतो मोतवफा साकिन महल्ला अलाह

वक्सपुर सलाके थाना आलमगंज मिनमहलात शहर पटना कौम कोइरी

पेशा कास्तकारी का हूँ

चूँ मनमोकिर वगरज अदाय दैन मोतवफरकाती जुवानी याफतनी चंदकसा

वो खराजात खानादारी अपने मवाजी 5 कठठा के जो अजस्ये पैमाइस सर्व

14 डी० आता है अराजी हीक्यत कास्त रैयती कायमी वाके महाल संदलपुर

कला परगना अजिमावाद सलाके थाना आलमगंज जिला पटना अजां ममलुका

वो क मकबुजा खुद के जो आज तक वेला सिरकत गैरे वो वेमदाखलत अहदे

वकब्ज वो दखल मनमोकिर चला आता है वो है वो हर किसी के वारदैन

वो वारकेफालत वो भी दीगर खलसात नुक्स हीक्यत वगैरह से वहर नवे

पाक वो साफ वो मुसतखलस है के जिसकी हदुद अरवा वो जुमला सराहत

वजैल वसीका हाजा मुन्दर्ज है वकुस रजाय वो रगवत खुद वो वेला जत्र वो

दवाव धमकाने वो वहकाने किसी दुसरे के वो वनिज वहालत सेहत जात वो

सवात अकल वो वदुरुस्तगी होश वो हवास अपने वो जुमले नफा वो नुक्सान

हाल वो आइन्दा को वपुवी समझ बुझकर वनेक निनीत तमाम अपने ववदल

कीमत अदल मो० 150 रुपया जत्र साही के आधा उसका मो० 75 रुपया

जब्रमौसुफा होता है वदस्त बंगाली महतो वल्द निर्मल महतो मोतवफा  
साकिन महल्ला वागभूम सिंह एलाके धाना आलमगंज मिनमहलात शहर  
पटना कौम कोइरी पेशा कास्तकारी के बेचा वो बैयलाक्लामी किया  
वो मिनजुमला जरसमन के मो० 30 रूपया कवल तहरीर वसीका हाजा  
वतौर बैयव्याना वसुल पाया है वो विक्रये मो० 120 रूपया इस वक्त  
नकद एकमुस्त वो एक दफा खरीदार से वसुल वो वेवाक पाया वो  
वकतज वो तसरुफ अपने दर लाया वो रफे जररीयात लाहका का किया  
वो ववसुल तमाम वो कमाल जरसमन मुसतरी मरकुम को उपर सैय मोवईया  
वकायम मोकामी अपने काबज वो दिखल वो मालिक मुस्तकिल गरदाना  
इलहाल जो हक वो मराफिक उपर सैय मोवईया मनमोकिर को हासिल  
था हाला वह कुल हक आज के तारीख से मुनीकल होकर वजीनसहु वो  
वेला तफरका आइंदा वो वेला कम वो कास्त मुसतरी मरकुम को  
हासिल हुआ हाला मनमोकिर खाह वारसान कायम मोकामान मनमोकिर  
को वीनसक्त सैय मोवईया खाह वसुल जरसमन साथ मुसतरी मरकुम वो  
वारसान कायम मोकामान उनके कोइ दावा वे मोतालवा वो मवाखजा  
हक्के वो तलवे वो खुसुमते किसी किसीम का वाकी नही है वो न रहा  
वो न आइन्दे होगा वो मुसतरी मरकुम ववजह वावर कराने मुसतखलस

जायदाद सैय मोवईया को वअदाय तमाम वो क्माल जरसमन महज साथ  
खुत निनीत के खरीद किया अगर खुदा न खास्ता सैय मोवईया मे कोई खीलस  
किस्ती किस्तीम का किस्ती वक्त मे किस्ती वक्त मेपैदा के जिस्तके वजह से  
जुज वो कुल सैय मोवईया खरीदार के दखल से वेदखल हो जाये या सुरत  
वेदखली जहुर मे आवे तो वैसे हालत मे उनको अछितयार हासिल है वो  
होगा कि कुल जरसमन अपना वो मय छेसारा वो तावान जिस्त कदर आयद ह  
हाल हो जात वो जायदाद मनकुला वो गैर मनकुला नामी वो वेनामी से  
मनमोकिर वो वारसान कायम मोकामान से मनमोकिर से वसुल कर लेवेगे  
वो नाम अपना वसिरस्ता मुसपलेटी वो जमींदरी जहां जहां जरूरत हो  
दर्ज करा लेवे इसमे मनमोकिर खाह वारसान कायम मोकामान मनमोकिर को  
कुछ उजुर वो हिला नहीं है वो न होगा इसलिये वसिका बैयलाक्लामी  
लिख दिया कि वक्त पर काम आवे फक्त

हुदद अरवा सैय मकुला

दरोवस्त 16 आना मवाजी 5 कठठा के जो अजरूये पैमाइस सर्व 14 डी०

आता है अराजी हीक्यत कास्त रैयती कायमी वाके वाके मौजे संदलपुर

क्ला परगना अजीमावाद थाना आलमगंज जिला पटना सब रजिस्ट्री वो

सदर रजिस्ट्री वो डीवजन सदर सहर पटना थाना नं. ॥ तौजी नं. 303

के जो व जमींदारी महंथ रामीक्सुन दास चेला वो वारीस महंथ असंत दास

मुन्दर्जे खेवट नं. 15 दरम्यानी के वाके है के जिसका लगान सालाना मो०

3 रूपया 10 आना है मुन्दर्जे खाता नं. 512

नं. खसरा 1483 घेरा अराजी 5 क्ठा डीह 14 डीसमिल सर्व

उतर- कास्त घसीटा महतो , दक्षिण आहर बांध

पूरब - कास्त बंगाली महतो मिस्त्री पश्चिम आहर बांध

तहरीर तारीख 21 अप्रिल सन 1921 ई०

सही बुधु महतो वसीका ब्य लाक्लामी लिखा सो सही मजमुन कातिव से

पटाके सुन लिया वो समझ लिया वाक्लम विफन महतो तारीख 21-4-21

सही विफन महतो साकिन महल्ले भूप सिंह मोरिंकर निसान अंगुठा मेरे सामने

बनाया वाक्लमखास तारीख 21-4-21

गवाह सुपन मिस्त्री साकिन नारवन्द टोली मुखाते मोरिंकर के वाक्लमखास

गवाह बेचन महतो साकिन मिरदाहा टोली मुखाते मोरिंकर वाक्लमखास

गवाह छोटू कांदु साकिन नारवंद टोली मुखाते मोरिंकर के वाक्लमखास

गवाह शिवाव महतो साकिन अरफावाद राजपुत टोली मुखाते मोरिंकर के वाक्लम०

गवाह शिवनारायण सिंह साकिन आलमगंज नारवंद टोली मुखाते मोरिंकर के

वाक्लम 11स गवाह छु महतो साकिन वाग भूम सिंह मुखाते मोरिंकर के वाक्लमखार

कातिव वसीका हाजा गणपत लाल साकिन महल्ला सुलतानगंज मिनमहलात

शाहर पटना वशकार मनमोरिंकर नीवस्ता सुद मजमुन वसीका मनमोरिंकर को

पढकर सुना दिया वो समझा दिया ।



*[Faint handwritten text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

Presented for registration  
of Land on the 22<sup>nd</sup>  
day of April 1921 at the  
Banking Sub-Registry  
Office by Radhika Datta

Son of Saradina Datta  
of 1/11 Lal Bahadur  
Thana Manjira  
District Dahod  
by caste Kanva  
by profession Sub

22/4/21  
Radhika Datta  
Registering Officer, 22/4/21

*[Faint handwritten text in the middle section, possibly a description or notes.]*

22/4/21  
22

22/4/21  
22

2549

Radhika Datta  
Registering Officer, 22-4-21



Handwritten text in Arabic script, likely a manuscript or letter, covering the upper and middle portions of the page. The text is dense and appears to be a continuous narrative or a list of items.

Vertical handwritten text on the right side of the page, possibly a date or a reference number. It includes the number "22-4-22" and some illegible characters.

Vertical handwritten text on the right side, below the first column, containing several lines of text.

Vertical handwritten text on the right side, below the second column, continuing the list or notes.

Handwritten text in Arabic script located in the lower-left quadrant of the page, possibly a signature or a separate note.